

तेघड़ा में नकली सरसों तेल फैक्ट्री में छापेमारी, कारोबारी गिरफ्तार

Author: Jagran Publish Date: Fri, 25 Mar 2022 06:48 PM (IST) Updated Date: Fri, 25 Mar 2022 06:48 PM (IST)



बेगूसराय। तेघड़ा बाजार में नकली व मिलावटी सरसों तेल का धंधा बड़े पैमाने पर किए जाने की सूचना पर प्रशासन ने दबिश बना कर छापेमारी की है। गुरुवार को एसडीओ राकेश कुमार व एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में तेघड़ा बाजार के कन्हैया भवन के समीप स्थित गोदाम में की गई छापेमारी में बड़े पैमाने पर नकली सरसों तेल के कारोबार का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालक तेघड़ा पुरानी बाजार निवासी शिवजी पोद्दार के पुत्र लक्ष्मण पोद्दार को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री भी सील की गई है। अवैध तरीके से संचालित उक्त फैक्ट्री में 20,260 किलोग्राम नकली सरसों तेल भरे टैंकर संख्या यूपी 67 एटी 2995 से पाइप के द्वारा बड़ी-बड़ी टंकियों में भंडारण करते हुए रंगेहाथ पकड़ा है। बरामद किए गए तेल में 165 टीन में प्रत्येक टीन में लगभग 13 केजी अलग-अलग ब्रांड का पालकी, सखी, गुलमोहर ब्रांड का लेबल लगा हुआ था। मौके से ब्रांडेड तेल कंपनियों के रैपर लगा 558 खाली टीन, बिना एमआरपी व एक्सपायरी डेट लिखा 563 भरा टीन जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान आगत, निर्गत भंडार से संबंधित कोई भी पंजी नहीं दिखाया गया। वहीं गोदाम के बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया था, जो गंभीर मामला है।

Source: <https://www.jagran.com/bihar/begusarai-raid-in-fake-mustard-oil-factory-in-teghra-businessman-arrested-22570885.html>